ORACLE CREDIT LIMITED

(QN L65910DL1991PL0043281)

Regd. Office: Rat No. B-502, 5th Roor, B-wing, Statesman House 148, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi New Delhi – 110001

Corp. Office: 6th Floor-609, C/66, G block, B & C wing one BKC, Opposite Bank of Baroda, Bandra(E) Mumbai 400051 MHIN

Email: compliance@credentglobal.com Website: www.credentglobal.com

Contact No.: 022-68452001

Date: 16th November, 2022

To, The Manager, BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400001

Company Symbol: ORACLECR

Script Code: 539598

Subject: Newspaper advertisement titled statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter and half Year ended on 30th September, 2022.

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 30 and 47(3) read with Schedule III of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find herewith attached copies of Newspaper advertisement for the statement of Standalone and Consolidated unaudited Financial Results for the Quarter and half Year ended on 30th September, 2022, published on 16th November, 2022 in English newspaper "Financial Express" and in "Jansatta" newspaper Hindi (Regional) language.

This will also be hosted on the Company's website at www.credentglobal.com

This is for your information and records.

For & on behalf of Oracle Credit Limited

ADITYA
VIKRAM
VIKRAM
KANORIA

Aditya Vikram Kanoria Managing Director DIN: 07002410

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT

Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016]

FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF M/s BPTP LIMITED RELEVANT PARTICULARS

| 1. | Name of Corporate Debtor | M/s BPTP LIMITED |
|-----|--|--|
| 2. | Date of incorporation of Corporate Debtor | 11/08/2003 |
| 3. | Authority under which Corporate Debtor is incorporated / registered | Registrar of Companies - Haryana |
| 4. | Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of Corporate Debtor | U45201HR2003PLC082732 |
| 5. | Address of the registered office and principal office (if any) of Corporate Debtor | OT-14, 3rd Floor, Next Door Parklands, Sector-76 Faridabad, Haryana-121004 |
| 6. | Insolvency commencement date in respect of Corporate Debtor | 14/11/2022 |
| 7. | Estimated date of closure of insolvency resolution process | 13/05/2023 |
| 8. | Name and Registration number of the insolvency professional acting as Interim Resolution Professional | RAKESH KUMAR GUPTA Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-P00833/2017-18/11418 |
| 9. | Address & email of the interim resolution professional, as registered with the board | Rakesh Kumar Gupta, C/o: PARM & SMRN 701, Vikrant Tower 4, Rajendra Place, New Delhi-110008. E-mail Id: rkg.delhi.ca@gmail.com |
| 10. | Address and e-mail to be used for correspondence with the Interim Resolution Professional | Rakesh Kumar Gupta, C/O: Parm & Associate LLP 701, Vikrant Tower 4, Rajendra Place, New Delhi-110008. E-mail Id: cirp.bptp@gmail.com |
| 11. | Last date for submission of claims | 27/11/2022 |
| 12, | Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the Interim Resolution Professional | |
| 13. | Names of insolvency professionals identified to act as authorised representative of creditors in a class (three names for each class) | |
| 14. | (a) Relevant forms available at (b) Details of authorized representatives are available at: | a) WEB LINK: https://ibbi.gov.in/home/downloads b) Details of AR are available at item No.13 above. |

insolvency resolution process of the M/s BPTP Limited on 14/11/2022 in C.P. No. (IB)-1316(ND)/2019. The creditors of M/s BPTP Limited are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 27/11/2022 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means. A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorized representative from among the three insolvency professionals listed against entry No.13 to act as authorized representative of the class [Real Estate Investors] in Form CA.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties Rakesh Kumar Gupta IRP of BPTP Ltd Date: 15.11.2022 011-47100179 Place: New Delhi

नीलामी प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक सूचना

शवालिक रमाल फोइनर्स बक्र ाल. पूर्व नाम शिवालिक मकटाइल का आपराटव बक्र ाल पंजीकत कार्यालय-501 सिलिकॉन औरम जसोला जिला-सेंटर नई दिल्ली दक्षिण दिल्ली-110025 तथा प्रधान कार्यालय प्लॉट नंबर-2बी, 6वीं मंजिल टॉवर 3. इंडिया ग्लाइकोल्स, बिल्डिंग सेक्टर-126 नौएडा, उत्तर प्रदेश, पिन0 नंबर-201304 द्वारा समक्ष मध्यस्थ न्यायाधिकरण श्री सुधीर कुमार द्वारा दिनांक 22.07.2022 को मध्यस्थ वाद संख्या एस -111 / 2022 श्री सोन् गोयल पुत्र श्री राजकुमार गोयल व अन्य में मध्यस्थ एवं सुलह अधिनियम कि धारा 17 के अंतर्गत पारित किये गए आदेश के अनुसार प्रतिवादी कि अचल सम्पति को बैंक द्वारा कब्जा / हिरासत में लिया गया। हिरासत में ली गयी अचल सम्पति को बँक नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय करने हेतु सार्वजानिक सूचना को प्रेषित कर रहा है। अचल सम्पति का ब्यौरा निम्न है:--ग्राम-मकान नं. 40, स्थित बांके बिहारी पुरम, बिसरख रोड, ग्राम- छपरौला

परगना व तहसील दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश, पिन नंबर-20130, में रकबा 120 वर्ग गज यानि कि 100.33, वर्ग मीटर जो कि खसरा नं. 1271 में स्थित है (जिसमें मालिकाना कब्जा सोनू गोयल का है)

नियम व शर्ते

- 1. नीलामी प्रकिया अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 22-11-2022 को स्थान शिवालिक स्माल फाइनेंस बँक, सी-2/6, नई सडक, शास्त्री नगर, मेरठ में निर्धारित
- 2. सीलबंद बोलियां / प्रस्ताव 22 नवम्बर 2022 को 12:00 बजे —14:00 बजे बैंक के उपर्युक्त शाखा कार्यालय में बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी और प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर प्रस्ताव मूल्य को बढ़ाने के लिए परस्पर बोली में भाग लेने का अवसर दिया जायेगा।
- 3. दिनांक 21-11-2022 को प्रातः 10:00 से 5:00 तक उक्त अचल सम्पति परीक्षण हेत् निर्धारित कि गई है।
- . नीलामी प्रक्रिया में प्रस्तुत किया जाने वाला बोली मुल्य, आरक्षित मुल्य 27,00,000 से अधिक होगी। अधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित आरक्षित मृल्य से कम पर संपत्ति की
- 5. सफल बोलीदाता को बिक्री का 10% (ई.एम.डी.सहित) नीलामी प्रक्रिया के दिन शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड शाखा मेरठ के पक्ष में डिमांड ड्रापट द्वारा जमा करना आवश्यक है, जो सम्बंधित शाखा में देय है और बिक्री मूल्य का 25% नीलामी प्रक्रिया के अगले दिन जमा करना आवश्यक है। बिक्री की शेष राशि (65%) सफल बोलीदाता द्वारा मूल्य का भूगतान 15 दिनों के भीतर किया जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा भूगतान की गई ई.एम.डी और बिक्री मूल्य पर कोई ब्याज नहीं होगा। यदि सफल बोलीदाता बिक्री की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या कोई चूक करता है, तो ई.एम.डी. जमा या 25%, जो भी हो, या जो भी मूल्य जमा कराया जाएगा, बैंक द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।
- उक्त अचल सम्पति "जो है जैसा है, जैसी स्थित में है, वैसी ही बेची जोयगी" प्रक्रिया पर विक्रय कि जायेगी।
- 7. बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्ते के लिए कृप्या शिवालिक रमॉल फाइनेंस बैंक, सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट https://shivalikbank.com/auction_of_bank_properties.php में दिए गए लिंक को देखें।
- निलामी प्रक्रिया कि अधिक जानकारी के लिए, अधिकृत अधिकारी श्री सतेन्द्र सिंह -9599058695 से संपर्क करें।

दिनांक :- 16.11.2022 स्थान:- गाजियाबाद

POONAWALLA

HOUSING FINANCE

शियालिक स्माल फाइनेंस बैंक लि.

NOTICE The Tata Power Company Limited

Registered Office: Bombay House 24, Homi Mody Street, Mumbai - 400 001 NOTICE is hereby given that the certificate(s) for the undermentioned securities of the Company has been lost/misplaced and the holder of the said securities/application has applied to the Company to issue duplicate certificate(s).

Any person who has a claim in respect of the said securities should lodge such claim with the Company at its Registered Office within 15 days from this date, else the Company will proceed to issue duplicate certificate(s) without further intimation.

| Name of holder | Kind of Securities and face value | No of Securities | Distinctive Number(s) |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Shailabh Bansal | Equity & Rs 1/- | 9400 | 16686661 - 16696060 |
| Place: Delhi Dat | e: 16 Nov. 2022 | | Shailabh Bansal |



MODERN STEELS LIMITED

CIN: L27109PB1973PLC003358 Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 Registered Office: G.T. Road, Mandi Gobindgarh (Punjab)-147301

Extract of Unaudited Financial Results (Reviewed) for the Quarter and half year ended 30th September, 2022

| Particulars (Refer Notes below) | Quarter ended 30 September 2022 | Half year ended 30 September 2022 | Corresponding 3 months ended in the previous year 30 September 2021 |
|--|---------------------------------------|---|--|
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) |
| Total income from operations (net) | 134 | 136 | 3408 |
| Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) | 117 | 99 | (138) |
| Profit/(Loss) from ordinary activities after tax | 117 | 99 | (138) |
| Equity Share Capital | 1,440 | 1,440 | 1,440 |
| Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in balance sheet of previous year) | • | 1.51 | |
| Profit/(Loss) per share (for continuing operations) | | | |
| (a) Basic | 0.85 | 0.72 | (1.01) |
| (b) Diluted Profit/(Loss) per share (for discontinued & continuing operations) | 0.85 | 0.72 | (1.01) |
| (a) Basic | 0.85 | 0.72 | (1.01) |
| (b) Diluted | 0.85 | 0.72 | (1.01) |
| AN EMPLOY OF THE PROPERTY OF T | | | |

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors

₹ in Lacs except EPS

Date: 14th November, 2022 DIN: 00009122



MODERN DAIRIES LIMITED

Corporate Office: SCO 98-99, Sub City Centre, Sector 34, Chandigarh-160022 Registered Office & Works: 136 KM, G.T. Road, Karnal (Haryana)-132001

Extract of Unaudited Financial Results (Reviewed)

for the Quarter and half year ended 30th September, 2022

| | | | F. III PRIVATE PARTICIPATION OF |
|---|---|---|--|
| Particulars (Refer Notes below) | "Quarter ended 30 September 2022" | Half year ended 30 September 2022 | Corresponding 3 months ended in the previous year 30 September 2021 |
| | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) |
| Total income from operations (net) | 4,268.72 | 8,706.06 | 5,800.61 |
| Profit from ordinary activities after tax | 423.57 | 688.71 | 50.21 |
| Profit for the period after tax (after Extraordinary items) | 423.57 | 688.71 | 50.21 |
| Equity Share Capital | 2,335.89 | 2,335.89 | 2,335.89 |
| Reserve (excluding Revaluation Reserves as shown in balance sheet of previous year) | * | | (96) |
| Earnings per share (for continuing operations) | | | |
| (a) Basic | 1.82 | 2.95 | 0.22 |
| (b) Diluted | 1.82 | 2.95 | 0.22 |
| Earnings per share (for discontinued & continuing operations) | | | |
| (a) Basic | 1.82 | 2.95 | 0.22 |
| (b) Diluted | 1.82 | 2.95 | 0.22 |

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and half yearly Unaudited Financial Results are available on the stock exchange website (www.bseindia.com)

For and on behalf of Board of Directors

A.K. Aggarwal Place: Chandigarh Date: 14th November, 2022

(Executive Director) (DIN: 00486430)

POONAWALLA HOUSING FINANCE LTD.

SALE NOTICE REGISTERED OFFICE:602, 6TH FLOOR, ZERO ONE IT PARK, SR. NO. 79/1, GHORPADI, MUNDHWA ROAD, PUNE 411036 BRANCH OFF UNIT: 3RD, FLOOR PLOT NO-3 SECTOR 3 KAUSHAMBI ADJACENT TO AXIS BANK, GAZIABAD-201010 Sale of secured immovable asset under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest

Act, 2002 (hereinafter referred to as "the Act") Notice is hereby given to the public in general and to the Borrowers/Co-Borrowers/Guarantors in particular that the under mentioned properties mortgaged to Magma Housing Finance Ltd has now been renamed as Poonawalla Housing Finance Ltd vide Certificate of Incorporation. The possession of which had been taken by the respective Authorised Officer of the company under section 13 (4)/ section 14 of the Act, will be sold through e-Auction as per the terms mentioned below for the recovery of company's outstanding dues with applicable

अधिकृत अधिकारी

(hereinafter referred to as the Rules):

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to link provided in Poonawalla Housing Finance Limited /Secured Creditor's website i.e. www.poonawallahousing.com

| PROPOSAL NO. CUSTOMER NAME {A} | DEMAND NOTICE DATE AND OUTSTANDING AMOUNT {B} | NATURE OF POSSE- SSION {C} | OF PROPERTY | RESERVE PRICE {E} | | EMD SUBMI- SSION DATE {G} | NTAL BID | INSPECTION | TIME OF | KNOWN ENCUME BANCES/COURT CASES IF ANY {K |
|---|---|----------------------------------|--|--|--|---------------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|---|
| LOAN NO. HM/0031/H/17/ 100434 TOOFANI (BORROWER) , RAJNI (CO- BORROWER) | Total Dues: Rs.1551410.78/- | Physical | AALL THAT PIECE AND PARCEL OF MORTGAGED PROPERTY OF SECOND FLOOR (FRONT SIDE), AREA MEASURING 55 SQ. YDS., "SAID PORTION", PART OF PLOT NO. 5, TOTAL AREA MEASURING 200 SQ. YDS., OUT OF KHASRA NO. 109/13, SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE PALAM, ABADI KNOWN AS COLONY RAJA PURI (REGULARIZED BY MCD VIDE RESOLUTIONN NO. 3175/STG. DATED 07.02.1983), BLOCK-K-1, UTTAM NAGAR, | 19,68,750/ - (Rupees Nineteen Lakh Sixty- Eight Thousand Seven Hundred Fifty Only) | (Rupees One Lakh Ninety-Six Thousand Eight | | 10,000/- | 13-12-2022 (11AM 4PM) | 20-12-2022 (11AM 2PM) | NIL |

The intending bidders are advised to visit the Branch and the properties put up on Auction, and obtain necessary information regarding charges, encumbrances. The purchaser shall make his own enquiry and ascertain the additional charges, encumbrances and any third-party interests and satisfy himself/herself/itself in all aspects thereto. All statutory dues like property taxes, electricity dues and any other dues, if any, attached to the property should be ascertained and paid by the successful bidder(s)/prospective purchaser(s). The bidder(s)/prospective purchaser(s) are requested, in their own interest, to satisfy himself/herself/itself with regard to the above and the other relevant details

The interested bidders are required to register themselves with the portal and obtain login ID and Password well in advance, which is mandatory for e-bidding, from auction service provider) C1 India PVT LTD. Address- Plot No-68 3rd floor Gurgaon Haryana-122003. Helpline Number- 7291981124,25,26 Support Email id Support@bankeauctions.com. Contact Person Vinod Chauhan, Email id- delhi@c1india.com Contact No- 9813887931. Please note that Prospective bidders may

sudanshu.sharrma@poonawallahousing.com. PLACE: DELHI

Authorised Officer Poonawalla Housing Finance Limited (Formerly Known as Magma Housing finance Ltd)

MEFCOM CAPITAL MARKETS LIMITED

Regd. Office: - 5th Floor, Sanchi Building, 77, Nehru Place, New Delhi - 110 019

CIN: L74899DL1985PLC019749

Extract of Statement of unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30.09.2022 (Rs. in Lacs)

| S. No. | PARTICULARS | | | STANDA | LONE | | |
|-----------|--|------------------|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| | | Quarter ended | | | Half Y | Year ended | |
| | | 30.09.2022 | 30.06.2022 UnAudited | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 |
| | | UnAudited | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| | Total Income | 1,619.28 | 1,296.04 | 3,063.68 | 2,915.31 | 4,739.26 | 9,184.36 |
| 2 | Net Profit /(Loss) for the period after tax | 121.98 | (424.29) | 140.98 | (302.31) | 339.00 | 274.92 |
| 3 | Total Comprehensive Income for the Period | 114.49 | (454.63) | 123.32 | (340.14) | 470.86 | 479.62 |
| \exists | Equity Share Capital (Paid-up) (FV of Rs. 10/- each) | 914.02 | 914.02 | 914.02 | 914.02 | 914.02 | 914.02 |
| T | Reserves excluding revaluation reserves (as shown in balance sheet of previous year) | - 8 2 1 - | | - | | - | v |
| | Earning Per Share - Basic/ Diluted (Rs.per equity share) | 1.33 | (4.64) | 1.54 | (3.31) | 3.71 | 3.01 |
| 7 | | | 4 | CON | SOLIDATED | | |
| _ | Total Income | 1,837.68 | 1,423.74 | 3,512.38 | 3,261.42 | 5,652.61 | 10,714.51 |
| | Net Profit /(Loss) for the period after tax | 115.32 | (450.57) | 173.80 | (335.25) | 386.61 | 318.70 |
| 7 | Total Comprehensive Income for the Period | 107.84 | (480.92) | 156.14 | (373.07) | 518.47 | 523.40 |
| lote: | | | 1 | | | | |

The above is an extract of the detailed Financial Results for the quarter and half year ended September 30, 2022 filled with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full standalone and consolidated Financial results in prescribed format are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and Company's Website www.mefcom.in.

2 The Company has adopted Indian Accounting standards ('Ind AS') from 1st April, 2017 (transition date April 01, 2016) and accordingly, these Financial results have been prepared in accordance Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013, read with relevant rules issued thereunder and the other accounting principles generally accepted in India.

respectively compared to corresponding actual cost thereof has an impact of enhancement in half yearly loss to the tune of Rs.268.04 lakh.

The figures of the previous period(s)/ year have been regrouped/ restated wherever considered necessary. (Disclosure by Management of the Company) - That appreciation and diminution in the valuation of stock-in-trade at market price prevailing on 31st Mar, 2022 and 30th Sep, 2022

> For Mefcom Capital Markets Ltd Shailendra Haruray

> > Director

DIN: 00075083

Place: New Delhi Date: 14-Nov-2022

ORACLE CREDIT LIMITED

Regd. Office: Flat No. B-502, 5th Floor, B-wing, Statesman House, 148, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi- 110001, India Corporate Office: Unit No. 609, 6" Floor, C-Wing, G Block, One BKC, Opp. Bank of Baroda, Bandra (E), Mumbai-400051, MH, IN Email: compliance@credentglobal.com, CIN No. L65910DL1991PLC043281

STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30TH SEPTEMBER, 2022 (Rs. In Lakhs) except EPS Consolidated

| | | Standarone | | | | Consolidated | | | | | |
|-----------|---|----------------------------------|---|--------------------|---|--------------|-----------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|
| Sr No. | | Quarter 3 Mont Ended ended in | 3 Months ended in the previous year | Half Year Ended | Corresponding half year ended in the previous year | Year Ended | Current Quarter Ended | Corresponding 3 Months ended in the previous year | Half Year Ended | half year ended in the previous year | Year Ended 31.03.2022 |
| | | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 31.03.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2021 | 30.09.2022 | | |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total income from operations (net) | 24.89 | 9.53 | 40.77 | 18.95 | 40.57 | 69.16 | 5 | 106.35 | - | 287.42 |
| 2 | Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary items) | 47.08 | 5.64 | 102.36 | 11.38 | 56.11 | 57.33 | ÷ | 110.75 | | 221.16 |
| 3 | Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items) | 47.08 | 5.64 | 102.36 | 11.38 | 56.11 | 57.33 | - | 110.75 | | 221,16 |
| 4 | Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items) | 34.83 | 4.22 | 75.74 | 8.52 | 41.51 | 57.97 | - | 103.31 | - | 172.78 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]** | | 422 | 75.74 | 8.52 | 41.51 | 57.97 | | 103.31 | | 172.78 |
| 6 | Equity Share Capital | 693.75 | 555.00 | 693.75 | 555.00 | 555.00 | 693.75 | - | 693.75 | + | 555.00 |
| 7 | Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | | | | | 80.13 | | | | | |
| 8 | Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) not annualized for Quarter Basic Diluted | 0.502 | 0.076 | 1.092 | 0.153 | 0.748 | 0.836 | * | 1.489 | | 3.113 |

The above results have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on 14th November, 2022. The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and half year ended 30th September, 2022, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30th September, 2022 are available on the Stock Exchange websites i.e. www.bseindia.com and on company's

> By Order of the Board For Oracle Credit Limited

Place: New Delhi Date: 16.11.2022 Aditya Vikram Kanoria Managing Director DIN: 07002410

WELSPUN ENTERPRISES LIMITED WELSPUN ENTERPRISES

CIN: L45201GJ1994PLC023920 Regd. Office: Welspun City, Village Versamedi, Taluka Anjar, District Kutch, Gujarat 370110.

Corp. Office: Welspun House, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai - 400013. Website: www.welspunenterprises.com Email Id: companysecretary_wel@welspun.com **Extract of Statement of Unaudited Consolidated Financial Results**

for the quarter and half year ended 30 September 2022

| ı | | | | | | Rup | ees in lakhs |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|--------------------|
| | | | Quarter ende | ed | Period | ended | Year ended |
| Sr. No. | | 30 Sept, 2022 | 30 June, 2022 | 30 Sept, 2021 | 30 Sept, 2022 | 30 Sept, 2021 | 31 March, 2022 |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total income | 55,292 | 71,549 | 30,338 | 1,26,841 | 66,776 | 1,39,935 |
| 2 | Net Profit for the period from continuing operations | | | | | | |
| ۱ ۾ | (before tax and exceptional items) | 3,992 | 3,351 | 1,422 | 7,343 | 3,727 | 10,541 |
| 3 | Exceptional items (net) | 6,668 | - | 1 | 6,668 | - | - |
| 4 | Net Profit for the period from continuing operations | 10,660 | 3,351 | 1,422 | 14,010 | 3,727 | 10,541 |
| 5 | before tax (after exceptional items) Net Profit for the period from continuing operations after tax | 10,000 | 2,443 | 1,422 | 12,480 | 2,697 | 7,840 |
| ľ | (after exceptional items and after non-controlling interests) | 10,037 | 2,443 | 1,017 | 12,400 | 2,097 | 7,040 |
| 6 | Net Profit for the period from discontinuing operations after tax | 3,177 | 2,399 | 1,210 | 5,576 | 2,066 | 4,630 |
| ľ | (after exceptional items and after non-controlling interests) | 0,177 | 2,000 | 1,210 | 0,070 | 2,000 | 1,000 |
| 7 | Net Profit for the period from continuing and discontinuing | | | | | | |
| | operations after tax and after exceptional items and after | | | | | | |
| ı | non-controlling interests | 13,214 | 4,842 | 2,227 | 18,056 | 4,763 | 12,470 |
| 8 | Total Comprehensive Income for the period from continuing | | | | 440,000 400,000,000 | | |
| ı | and discontinuing operations | 13,089 | 4,877 | 2,327 | 17,966 | 4,867 | 12,610 |
| ı | (Comprising profit for the period (after tax) | | | | | | |
| ı | and Other Comprehensive | | | | | | |
| _ | Income (after tax) and after non-controlling interests | 14.000 | 44.002 | 14 906 | 14.000 | 14 000 | 14.070 |
| 9 10 | Paid-up equity share capital (Face Value Rs. 10/- each) | 14,998 | 14,993 | 14,896 | 14,998 | 14,896 | 14,978 1,64,130 |
| 11 | Reserves (excluding Revaluation Reserve) Securities Premium | 95,306 | 95,242 | 93,989 | 95,306 | 93,989 | 95,048 |
| 12 | Networth | 1,65,602 | 1,55,284 | 1,42,514 | 1,65,602 | 1,42,514 | 1,50,349 |
| 13 | Debt Equity Ratio * | 0.47 | 0.46 | 0.38 | 0.47 | 0.38 | 0.39 |
| 14 | Earnings per share (EPS) for continuing operations | | 00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | * Not Annualised | | | | | | |
| ı | (a) Basic EPS (Rs) | 6.70 * | 1.63 * | 0.68 * | 8.32 * | 1.81 * | 5.26 |
| ı | (b) Diluted EPS (Rs) | 6.68 * | 1.62 * | 0.68 * | 8.30 * | 1.80 * | 5.24 |
| 15 | The state of the s | | | | | | |
| ı | and discontinuing operations | | | | | | |
| ı | * Not Annualised | 0.00 + | 0.00 * | 4.50 * | 40.04 * | 0.00 * | 0.07 |
| | (a) Basic EPS | 8.82 * | 3.23 * | 1.50 * | 12.04 * | 3.20 * | 8.37 |
| 16 | (b) Diluted EPS Capital Redemption Reserve | 8.79 * NA | 3.21 * NA | 1.48 * NA | 12.01 * NA | 3.17 * NA | 8.33 NA |
| 17 | Debenture Redemption Reserve | NA NA | NA NA | NA NA | NA NA | NA NA | NA NA |
| 18 | Debt Service Coverage Ratio * | 3.48 | 3.34 | 2.12 | 3.41 | 2.47 | 2.65 |
| 19 | H impled for the Graph the record of the figure was ₩ exacts ready for the figure. | 2.47 | 2.40 | 1.70 | 2.44 | 1.92 | 2.04 |
| | * Ratios are based on continuing operations | | | | | | |

Notes:-

The above is an extract of detailed format of guarterly and half year ended financial results filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation 2015. The full format of the quarterly and half year ended financial results are available on the Stock Exchanges website www.nseindia.com and www.bseindia.com and also on company's website www.welspunenterprises.com

| | | | Quarter ende | d | Period | Year ende | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Sr. No. | PARTICITIARS | 30 Sept, 2022 | 30 June, 2022 | 30 Sept, 2021 | 30 Sept, 2022 | 30 Sept, 2021 | 31 March, 2022 |
| | | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Unaudited) | (Audited) |
| 1 | Total Income | 52,036 | 69,084 | 28,845 | 1,21,120 | 64,203 | 1,34,474 |
| 2 | Net profit for the period (before tax and exceptional items) | 3,779 | 3,164 | 1,748 | 6,943 | 4,269 | 11,600 |
| 3 | Net profit for the period before tax (after exceptional items) | 4,305 | 3,164 | 1,748 | 7,469 | 4,269 | 11,600 |
| 4 | Net profit for the period after tax | 3,959 | 2,498 | 1,423 | 6,457 | 3,422 | 9,344 |
| 5 | Total Comprehensive Income for the period (after tax) | 3,835 | 2,533 | 1,527 | 6,367 | 3,525 | 9,483 |
| | | | | | For Wels | spun Enterpr | ises Limited |

financialexp.epa

DATE: 16.11.2022

E-AUCTION

(FORMERLY KNOWN AS MAGMA HOUSING FINANCE LTD)

interest, charges, and costs etc. The property described is being sold on "AS IS WHERE IS, WHATEVER THERE IS AND WITHOUT RECOURSE BASIS" under the Rule 8 & 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules

the realization. NEW DELHI-110059 For further details and queries on purchase and sale contact Mr. Iqbal Alam (Mobile # 9958195453)

pertaining to the above-mentioned property/Properties, before submitting the bids.

avail online training on e-auction from them only. The intending purchaser/bidder is required to submit amount of the Earnest Money Deposit (EMD) by way of by way of NEFT/RTGS /DD in the account of "Poonawalla Housing Finance Ltd", Bank-ICICI BANK LTD. Account No-000651000460 and IFSC Code- ICIC0000006, 20, R. N. Mukherjee Road- Kolkata-700001 drawn on any nationalized or scheduled Bank on or before 19/12/2022 and register their name at https://www.bankeauctions.comand.get user ID and password free of cost and get training on e-Auction from the service provider. After their Registration on the website, the intending purchaser/bidder is required to get the copies of the following documents uploaded, e-mail and sent self-attested hard copy to Authorized Officer of Poonawalla Housing Finance Ltd. Mr. SUDANSHU SHARMA, Address- 3rd, Floor PLOT NO-3 SECTOR 3 KAUSHAMBI ADJACENT TO AXIS BANK, GAZIABAD-201010. Mobile no. 9953904004, e-mail ID:

Place: Mumbai Date: 14th November, 2022

Managing Director

New Delhi

Sandeep Garg DIN: 00036419

Paid- up Equity share capital

Date: 14.11.2022

Place: New Delhi

16 नवंबर, 2022

|27

Brahmaputra Infrastructure Limited

Regd. Off.: Brahmaputra House, A-7, Mahipalpur (NH-8 Crossing), New Delhi-110 037 CIN: L55204DL1998PLC095933, Email: cs@brahmaputragroup.com, Phone No 011-42290200

Un-Audited Standalone Financial Results for the Quarter Ended September 30, 2022 (Rs. In Crores Except EPS Half year ended Year ended Quarter ended **Particulars** 30-Sep-22 30-Jun-22 30-Sep-21 30-Sep-22 30-Sep-21 31-Mar-22 Reviewed Reviewed Reviewed Reviewed Audited 38.88 41.60 31.45 80.48 59.54 162.60 Total Income from operations (net) Total Expenses 34.74 39.16 27.54 73.90 54.38 154.14 Total Comprehensive Income for the year

Earnings per share (Before & after extraordinary Items) 0.92 0.65 1.82 0.87 0.20 1.80 These are the extracts of the Q-2 Un- Audited Results. Detail Copy of results are uploaded on at official Website of the company at

www.Brahmaputragroup.com and at BSE Corporate announcements

Raktim Acharjee Whole Time Director Din: 06722166

For and on behalf of Board of Directors

एप्पल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएनः L27104DL1972PLC206966 पंजीकृत कार्यालय : निजी कार्यालय संख्या -303, तीसरी मंजिल, भवन संख्या -5, सामुदायिक केंद्र, प्रीत विहार दिल्ली पूर्वी दिल्ली डीएल 110092 इन फोन: +911141755370, ईमेल: info@applegroup.co.in

30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (ईपीएस को छोडकर लाख रु.में)

| क्रं. | विवरण | | एव | ग ल | |
|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|
| सं. | | | समाप्त तिमार | 3 | समाप्त वर्ष |
| | | 30.09.2022 | 31.03.2022 | 30.06.2021 | 31.03.2022 |
| | | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | अलेखापरीक्षित | लेखापरीक्षित |
| 1. | परिचालन से कुल आय | 829.26 | 937.37 | 46.08 | 2102.87 |
| 2. | अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर से पहले, विशेष और /या असाधारण मदें) | 88.16 | -31.93 | 28.65 | 8.24 |
| 3. | कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) | 88.16 | -31.93 | 28.65 | 8.24 |
| 4. | कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद) | 88.16 | -31.93 | 21.23 | 23.08 |
| 5. | अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)] | 88.16 | -31.93 | 21.23 | 23.08 |
| 6. | इक्विटी शेयर पूंजी | 600.61 | 600.61 | 600.61 | 600.61 |
| 7. | आरक्षितों (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों)ः | | | | |
| 8. | प्रति शेयर आय (रु. 10/— प्रत्येक) (चालू और बंद परिचालन के लिए) (वार्षिककृत नहीं): | | | | |
| | मूल (रु. में) डाइलूटड (रु. में) | 0.89 | -0.53 | 0.35 | 0.38 |

1) उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तत प्रारूप का उद्धरण है। 30 जन, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों का परा प्रारूप कंपनी की वेबसाइट www.applemetal.co.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.msei.in) पर उपलब्ध है।

पूर्ववर्ती वर्ष

में समाप्त

तद्नुरूपी 3 माह

30.09.2021

9.53

5.64

5.64

4.22

4.22

555.00

0.076

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

बंधककृत संपत्ति के समस्त वह भाग तथ

अंश जो द्वितीय तल (आगे की ओर) पर है,

क्षेत्र माप 55 वर्ग गज, "उक्त भाग", भूखंड

सं. 5 का हिस्सा, कुल क्षेत्र माप 200 वर्ग

गज, खसरा सं. 109/13 में से, जो ग्राम

पालम की राजस्व संपदा, राजा पुरी कॉलोनी

के रूप में विदित आबादी (संकल्प सं

3175 / एसटीजी. दिनांकित 07.02.1983 के

माध्यम से एसीडी द्वारा नियमितकृत)

ब्लॉक-के-1, उत्तम नगर,

दिल्ली-110059 में स्थित हैं

तिमाही

30.09.2022

24.89

47.08

47.08

34.83

34.83

693.75

0.502

की प्रकृति

(सी)

समाप्त

छमाही

30.09.2022

40.77

102.36

102,36

75.74

75.74

693.75

1.092

वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट अर्थात (www.bseindia.com) पर तथा कंपनी की वेबसाइट अर्थात (www.credentglobal.com) पर उपलब्ध है।

2) 30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के लिए उपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और 14 नवंबर, 2022 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में अनुमोदित की गई।

ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड पंजीकृत कार्यातयः प्रतेट नंबर बी-502, डवीं मंजिल, बी-विंग, स्टेट्समैन हाउस, 148, बाराखंभा रोड, कर्नोट प्लेस, नई दिल्ली-110001, भारत कॉर्पोरेट कार्यातयः यूनिट नंबर् 609, 6वीं मंजिल, सी-विंग, जी ब्लॉक, वन बीकेसी, बेंक ऑफ बढ़ौदा के सामने, बांद्रा (है), मुंबई-400051, भारत

मितः compliance Condenty lobel com, CIN No. L55910DL1991PLC043281 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

18.95

11.38

11,38

8.52

8.52

555.00

0.153

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा एवं संस्तृति लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा तत्पष्चात निदेषक मण्डल द्वारा 14 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में परिणामों का अनुमोदन किया गया।

2. उपरोक्त विवरण, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं अन्य प्रकटीकरण आवष्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही

एवं छमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। दिनांक 30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित

पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे—411036

शाखा कार्यालय इकाई : ततीय तल, भखंड सं. ३, सेक्टर-३, कौशांबी, एक्सिस बैंक के समीप, गाजियाबाद-201010

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (यहां इसमें इसके उपरांत "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत प्रतिभृत अचल परिसंपत्ति का

एतद्दवारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं / गारंटरों को सूचित किया जाता है कि **मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि.** के पास बंधककृत निम्नवर्णित संपत्तियां अब निगमीकरण के प्रमाणपत्र द्वारा पुनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में नवनामित हो चुकी हैं। इनका अधिग्रहण अधिनियम की धारा 13(4) / धारा 14 के अंतर्गत कंपनी के संबंधित प्राधिकत अधिकारी द्वारा ले लिया गया था। अब इन्हें निम्न वर्णित नियमों के अनसार ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जायेगा। यह विक्रय प्रयोज्य ब्याज, शल्कों एवं लागतों इत्यादि के साथ देय कंपनी की बकाया राशियों की

निम्न वर्णित संपत्ति को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली (यहां इसमें इसके उपरांत नियमावली के रूप में संदर्भित) के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत ''जैसी हैं जहां हैं, वहां जो कुछ भी हैं तथा बिना

19,68,750/

सौ पचास

मात्र)

क्रय एवं विक्रय पर अन्य विवरणों तथा पूछताछों के लिये इकबाल आलम को (मोबाइल 9958195453) पर संपर्क करें

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह है कि शाखा तथा नीलामी पर रखी गयी संपत्तियों को देखने के लिये पहुंचे और शुल्कों, ऋणभारों के संबंध में अनिवार्य जानकारी प्राप्त करें। क्रेता को अपने स्वयं की जांच-पड़ताल करर्न

होगी तथा अतिरिक्त शुल्कों, ऋणभारों एवं किसी तृतीय-पक्ष के हितों को सुनिश्चित करना होगा और उपरोक्त संपत्ति से जुड़े हुये समस्त पहलुओं के बाबत स्वयं को / अपने आप को संतुष्ट करना होगा। संपत्ति से संबद्ध

समस्त सांविधिक देयताओं जैसे कि संपत्तिगत करों, बिजली के बकायों तथा किसी अन्य देनदारी, यदि कोई हो, का सुनिश्चयन तथा भुगतान सफल बोलीदाता(ओं) / संभावित क्रेता(ओं) द्वारा किया जायेगा

बोलीदाता(ओं) / संभावित क्रेता(ओं) से उनके स्वयं के हित में अनुरोध है कि वे बोलियां जमा करने से पहले उपरोक्त के संबंध में तथा उपरोक्त वर्णित संपत्ति / संपत्ति / संपत्तियों से संबंधित अन्य सुसंगत विवरणों के संबंध में

(आरपी की 10%)

(एफ)

₹.

1,96,875/-

(रुपए एक

छियानबे

हजार आठ

मात्र)

हजार सात सौ पिचहत्तर

19.12.2022

को 5 बजे से

10,000 /

10,000/-

विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.poonawallahousing.com में दिए गए लिंक को देखें।

वर्ष

30.09.2021 31.03.2022 30.09.2022

40.57

56.11

56.11

41.51

41.51

\$55.00

80.13

0.748

तिमाही

69.16

57.33

57.33

57.97

57.97

693.75

0.836

पूर्ववर्ती वर्ष

में समाप्त

तद्नुरूपी छमाही

कृते एप्पल मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता

स्थान : दिल्ली दिनांकः 14 नवंबर, 2022

विवरण

प्रचालनों से कुल आय

2 अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (कर

आपवादिक एवं / अथवा असाधारण

लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्त)

लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं / अथवा असाधारण मदों के उपरान्ती

[अवधि हेत् लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट]** 6 समता अंश पूंजी

🛕 कर उपरान्त अवधि हेतु निवल

🐧 अवधि हेतु कुल व्यापक आय

अारक्षितियां (पूर्ववर्ती वर्ष के

तरलीकृत

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 16.11.2022

वसूली के लिये किया जायेगा।

ग्राहक का नाम

(y)

ऋण सं:

HM/0031/H/17

/100434

तुफानी

(उधारकर्ता),

रजनी

(सह–उधारकर्ता)

उपाय आधार" पर बेचा जा रहा है:

तुलन-पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षित को छोड़कर) 🗂 आय प्रति अंश (रु. 10 / - प्रत्येक

का) तिमाही हेतु अवार्षिकीकृत

POONAWALLA

HOUSING FINANCE

(बी)

सचना तिथि:

25.04.2022

कुल देयराशिः

₹. 15,51,410.78/-

(रुपये पंद्रह लाख

इक्यावन हजार चार सौ

दस एवं अट्ठहत्तर पैसे

मात्र) जो 25.04.2022 के

अनुसार वसूली होने तक

13.50 प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित भूगतानयोग्य है

(निवल)

मदों से पूर्व) कर पूर्व अविध हेत् निवल

राजबीर सिंह कोहर्ल (प्रबंध निदेशक डीआईएन : 07802967

पूर्ववर्ती वर्ष

में समाप्त

तद्नुरूपी 3 माह

36.09.2021

समाप्त

छमाही

30.09.2022

106.35

110.75

110.75

103.31

103.31

693.75

1,489

उम्माद हाउासग फाइनस प्रा. लामटड

पंजीकृत कार्यालयः 318, डीएलएफ मैगनोलियास, सेक्टर-42, गोल्फ कोर्स रोड, गुरुग्राम (हरियाणा)-122002 कॉर्पोरेट कार्यालयः यूनिट 809—815, 8वीं मंजिल, टॉवर—ए, ईएमएएआर डिजिटल ग्रीन्स, गोरक कोर्स एक्सटेंशन रोड, सेक्टर-61, गुरुग्राम-122002 (हरियाणा), सीआईएनः U65922HR2016PTC057984

गराशष्ट IV { नियम—8(1)देखें {कब्जा सूचना

के प्रवर्तन के तहत मैसर्स उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्रा. लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित(प्रवर्त नियम, 2002 अधिनियम के नियम (3) के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में, निम्न विवरण के अनुस संबंधित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ भुगतान की वास्तविक तिथि तक उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने के लिए एक मांग जारी किया जाता है। उक्त ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं,एतद्दवा ऋणी / सह—उधारकर्ता / गारंटर / गिरवीकर्ता और आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित प्रवर्त-

नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम के धारा 13 के उप-धारा (4) के तहत उन्हें प्रदान किए गए शक्तियाँ के प्रयोग में इस तारीख को नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणी/सह–उधारकर्ता/गारंटर/गिरवीकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा आगाह किया जाता है कि संपत्ति क लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ लेन-देन करने पर यहाँ निर्दिष्ट राशि के साथ आगे ब्याज, लागत और शुल्क संबंधित तिथियों से पूर्ण भगतान तक की राशि **उम्मीद हाउसिंग फिनस प्राइवेट लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभृति परिसंपत्तियों को भूनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 के उपधारा (8) के प्रावधानों

तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं और गारंटरों, प्रतिभूतियों, बकाया देय राशि, धारा 13(2) के तहत भेजे गए मांग नोटिस और

| | उधारकर्ता , सह—उधारकर्ता, गारंटर का नाम और पता, ऋण खाता संख्या और ऋण राशि | | मांग सूचनाः दिनांक | रुपये में देय राशि |
|----|---|--|-----------------------|--|
| 1. | सुनील कुमार (उधारकर्ता) अनिल कुमार(सह—उधारकर्ता) राजेश कश्यप (सह—उधारकर्ता), | प्लॉट नं. 1277,ब्लॉक—एफ, खसर नंबर 335, ग्राम हकीकतपुर उर्फ खुदाबंस, राम पार्क एक्सटेंशन, | 12 अगस्त, 2022 | रुप.8,78,585.82 (आठ लार अठहत्तर हजार पांच र पच्चासी रुपये और बयार |
| | सभी का निवास स्थानः एव.नं. एफ–1277 राम पार्क एक्सटेंशन, गाजियाबाद–201102 लैन.सं.LXLAX02318-190002288 | क्षेत्रफल 100 वर्ग गज निम्नानुसार चौहदी :— पूर्वः 20 | कब्जा का दिनांकः | पैसे मात्र)साथ ही डिमां नोटिस की तिथि—1 अगस्त—2022 से आगे का ब्याज और अन्य शुल्क, |

उम्मीद हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दिनांकः 16.11.2022

SHIVAMSHREE BUSINESSES LIMITED CIN NO: L01403DL1983PLC015704

Regd Office: A-31, Gali No. 2, Madhu Vihar, Hanuman Mandir Delhi-110092 Co. office:F-12, 1st Floor, Pushpak Appt, Opp. Ratnakar-6, Jodhpur Gam, Satellite, Ahmedabad-380015 Ph. No. +91 79 40063353, Email: info@shivamshree.com Website: http://www.shivamshree.com

EXTRACT OF AUDITED/UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED ON 30° SEPTEMBER, 2022

Sr. Particulars Year Ended 30.09.2022 30.06.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021 31.03.2022 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) 7.68 47.36 85.53 Total Income From Operations 0.68 45.392 8.35 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional (2.81)23.10 (4.86)36.58 (2.04)23.22 and/or Extraordinary item) Net Profit for the period before Tax (after Exceptional 23.10 (2.81)36.58 (4.86)23.22 (2.04)and/or Extraordinary item) Net Profit for the period after Tax (after Exceptional 18.58 27.17 (1.52)(2.10)(3.63)17.34 and/or Extraordinary item) Total Comprehensive income for the period [Comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax) (2.10)18.58 17.34 27,17 (1.52)(3.63)456.50 456.50 456.50 456.50 Equity Share Capital 456.50 456.50 Earnings Per Share (of Rs.10/-each) (for continuing and discontinuing operations) (0.01)0.04 (0.00)(0.01)0.04 0.06

The results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on November 14, 2022. The above is an extract of the detailed format of the Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and on the Company's website (www.shivamshree.com)

For, Shivamshree Businesses Limited

0.04

0.06

Rs. in Lacs

Shaileshbhai P. Bavishiya Place: Ahmedabad Managing Director DIN: 01908191 Date: November 14, 202:

PHOENIX INTERNATIONAL LIMITED CIN: L74899DL1987PLC030092

Regd. Off.: 3rd Floor, Gopala Tower, 25, Rajendra Place, New Delhi - 110008

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2022

| | CONSOLIDATED | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|---|--------------------------|--|--|--|
| | | Quarter Ende | d | Half Ye | Year Ended | | | | |
| Particulars | 3 months ended 30.09.2022 | 3 months ended 30.06.2022 | Corresponding 3 Months ending in the previous year 30.09.2021 | 30.09.2022 | Corresponding half year ending in the previous year 30.09.2021 | year ended 31.03.2022 | | | |
| | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | UNAUDITED | AUDITED | | | |
| Total income from operations (net) | 822.47 | 966.27 | 695.10 | 1,788.74 | 1,096.73 | 2,710.56 | | | |
| Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax | 76.12 | 44.78 | 74.79 | 120.90 | (1.64) | 191.89 | | | |
| Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) | 74.07 | 42.73 | 73.76 | 116.80 | (3.80) | 172.85 | | | |
| Equity Share Capital | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | 1,678.96 | | | |
| Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) | - | | | | | le 555 | | | |
| Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ₹ 10/- each) Basic & Diluted | 0.44 | 0.25 | 0.44 | 0.70 | (0.02) | 1.03 | | | |
| Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted | 0.44 | 0.25 | 0.44 | 0.70 | (0.02) | 1.03 | | | |
| N | | | 1/2 | | | | | | |

2. Diluted

The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 14.11.2022

2. Key Standalone Financial Information: (Rs. In Lacs) STANDALONE **Half Year Ended Year Ended** Quarter Ended Corresponding Corresponding 3 3 months 3 months **Particulars** Months ending half year ending year ended 30.09.22 ended ended 31.03.2022 in the previous in the previous 30.06.2022 30.09.2022 year 30.09.2021 year 30.09.2021 UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED UNAUDITED AUDITED 693.98 1,788.74 1,095.62 2,710.56 Total income from operations (net) 822.47 966.27 let Profit / (Loss) from ordinary activities after tax 78.49 75.94 125.06 206.88 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items) 76.44 44.52 74.81 120.96 0.56 187.84 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 1,678.96 Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year) 0.46 0.27 0.45 0.72 0.00 1.12 Earnings Per Share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted 0.46 0.27 0.45 0.72 0.00 1.12 Earnings Per Share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Half-Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company's website www.phoenixindia.com For Phoenix International Limited Narender Kumar Makkar

Place: Delhi Date- 14.11.2022

पूर्ववर्ती वर्ष

में समाप्त तद्नुरूपी

30.09.2021 31.03.2022

समाप्त

वर्ष

287.42

221.16

221,16

172.78

172.78

555,00

3.113

बोर्ड के आदेशानुसार

आदित्य विक्रम कनोरिया

डीआईएन : 07002410

ई—नीलामी

विक्रय सूचना

यदि कोई,

20.12.2022

(11 बजे-

2 बजे)

हस्ता./-

प्रबंध निदेशक

कृते ओरेकल क्रेडिट लिमिटेड

सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड

सीआईएन : L74110DL1984PLC018467,

पंजी. कार्या: 906, डी-मॉल, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 वेबसाइट : www.sabrimala.co.in, ई-मेल: cs@sabrimala.co.in, दूरभाष : 011-41514958

30 सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही एवं छमाही के अलेखापरीक्षित एकल एवं समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

| 豖. | | एकल | | | | (रु. लाख ^२ समेकित | | | | |
|--------------------------|---|--|-------------------------------|--|----------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------|--|
| प्र ^{7.} सं. | | समाप्त चालू तिमाही 30.09.2022 अलेखापरीक्षत | समाप्त छमाही 30.09.2022 | पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तद्नुरूपी तिमाही 30.09.2021 अलेखापरीक्षित | 31.03.2022 लेखापरीक्षित | समाप्त चालू तिमाही 30.09.2022 अलेखापरीक्षित | समाप्त छमाही 30.09.2022 | पूर्ववर्ती वर्ष में समाप्त तद्नुरूपी तिमाही 30.09.2021 | 31.03.2022 लेखापरीक्षि | |
| 1. | प्रचालनों से कुल आय | 5.99 | 14.24 | 10.14 | 35.46 | 5.99 | 14.24 | 10.14 | 35.46 | |
| | अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (कर, आपवादिक एवं/ अथवा असाधारण मदों से पूर्व#) | 0.84 | 5.16 | 3.81 | (24.24) | 0.84 | 5.16 | 3.81 | (15.55) | |
| 3. | कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त#) | 0.84 | 5.16 | 3 .81 | (24.24) | 0.84 | 5.16 | 3 .81 | (15.55) | |
| 4. | कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरान्त#) | 0.62 | 3 .82 | 3 .22 | (24.24) | 0.62 | 3.82 | 3 .22 | (15.55) | |
| 5. | अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ / (हानि) (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्ट] | 0.62 | 3.82 | 3.22 | (24.24) | 0.62 | 3 .82 | 3 .22 | (15.55) | |
| 6. | समता अंष पूंजी | 871.45 | 871.45 | 871.45 | 871.45 | 871.45 | 871.45 | 871.45 | 871.45 | |
| 7. | आय प्रति अंष (रु. 10/— प्रत्येक का) (परिचालनरत् एवं अपरिचालित परिचालनों के लिए)— | | | | | | | | | |
| | 1. मूल : | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.18 | |
| | 2. तरलीकृत : | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.28 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | -0.18 | |

1. उपरोक्त विवरण, सेबी (सुचीकरण एवं अन्य प्रकटीकरण आवष्यकताएं) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध त्रैमासिक एवं वर्ष प्रतिवर्ष के वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। त्रैमासि एवं वर्ष प्रतिवर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट अर्थात् (www.bseindia.com एवं www.cse-india.com) पर तथा सूचीबद्ध कंपनी की वेबसाइट अर्थात् (www.sabrimala.co.in) पर उपलब्ध है . इस विवरण की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा तत्पष्वात निदेषक मण्डल द्वारा 14 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी बैठक में विवरण का अनुमोदन किया गया। संवैधानिक लेखापरीक्षक द्वारा उपरोक्त वित्तीय परिणाम

> सबरीमाला इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटे के लिये एवं उसकी ओर

Director & Company Secretary

Din No.: 00026857

दिनांक : 15.11.2022 स्थान: नई दिल्ली

की एक सीमित समीक्षा की गयी है।

हस्ता./ सुरेष कुमार मित्तल (प्रबंध निदेशक

CHAIRMAN & MANAGING DIRECTOR

SALORA

SALORA INTERNATIONAL LIMITED

CIN: L74899DL1968PLC004962 Regd. office: D-13/4, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020.

Visit us at www.salora.com EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED 30™ SEPTEMBER, 2022

| | | | | | | (Rs. In lacs) | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | Quarter Ended | | | Six Mont | Year Ended | | | | | | | | |
| Particulars | 30.09.2022 Unaudited | 30.06.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 30.09.2022 Unaudited | 30.09.2021 Unaudited | 31.03.2022 Audited | | | | | | | |
| | | | | | | | Total Income from operations | 4,694.38 | 1,054.52 | 1,614.98 | 5,748.90 | 3,359.84 | 7,264.47 |
| Profit/(loss) before tax (including exceptional item) | (85.90) | (98.31) | (516.83) | (184.21) | (781.20) | 2,772.31 | | | | | | | |
| Net profit / (loss) for the period after tax | (61.19) | (73.91) | (387.34) | (135.10) | (586.57) | 2,404.64 | | | | | | | |
| Total comprehensive income (comprising profit / (loss) (after tax) and other comprehensive income (after tax)) | (61.92) | (74.64) | (387.89) | (136.57) | (587.67) | 2,401.71 | | | | | | | |
| Paid-up Equity Share Capital | 880.73 | 880.73 | 880.73 | 880.73 | 880.73 | 880.73 | | | | | | | |
| Reserves as shown in the Balance Sheet | - | . 4 | - | <u>u</u> | - | 5,871.83 | | | | | | | |
| Earning per Share (of Rs. 10/- each) | | | | | | | | | | | | | |
| Basic & diluted earning per share (before exceptional items) | (0.69) | (0.84) | 0.35 | (1.53) | (1.91) | (17.91) | | | | | | | |
| Basic & diluted earning per share (after exceptional items) | (0.69) | (0.84) | (4.40) | (1.53) | (6.66) | 27.30 | | | | | | | |

- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved thereafter by the Board of Directors in the meeting held on 14th November 2022 & these results have been reviewed by the Statuatory Auditors of the company.
- 2. The company filed a SLP on merits with the Honourable Supreme Court which is pending for disposal. However on 16.12.2021, the Company filed a writ petition in High Court of Delhi to direct the department to condone the delay due to Covid-19 and the High Court has issued notice to the concerned authorities which is pending for disposal. The Contingent Liability against this matter shall stand as it is, till either the High Court or the Supreme Court decides on this matter.
- 3. Deferred tax assets Rs. 1867.85 lakhs as at 30th September 2022 is expected to be realized as the company strongly believes that it has virtual certainty of realization as necessary steps have been taken for restructuring the business and keeping in view current growth trends & future business plans of the company. Moreover in this quarter the operations have completely shifted from Noida to New Delhi and assessment is under review with respect to impact of discontinued products if any. However the company is fully focused on operational performance which is apparent from the sharp increase in the turnover of the company in this quarter. The company has also tied-up with Defunc brand and had a launch of the new products on 10th November 2022 and other products like smart watch etc. shall be introduced shortly.
- 4. In accordance with IND AS-108 "Operating Segment", the company has only one reportable segment i.e " Consumer Electronic Division".
- 5. Previous quarters/ half year ended figures have been regrouped/reclassified wherever necessary to confirm to the current quarter /half year

GOPAL SITARAM JIWARAJKA Place: New Delhi.

These unaudited financial results can be accessed on the website of the Company i.e. www.salora.com and also on the website of Stock Exchange i.e.

1.89 5.28 2.53 2.68 0.59 5.21 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01 29.01

> ऋण राशिः रु.९,65,277/-. गली , उत्तरः अन्य का प्लॉट दक्षिणः अन्य का प्लॉट।

इच्छूक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे नीलामी सेवा प्रदाता सी1 इंडिया प्रा. लि., पताः भूखंड सं. 68, तृतीय तल, गूड्गांव, हरियाणा—122003, हेल्पलाइन नंबरः 7291981124, 25, 26, सपोर्ट ईमेल आईडी: Support@bankeauctions.com संपर्क हेतु व्यक्तिः विनोद चौहान, ईमेल आईडीः delhi@clindia.com, संपर्क नंबरः 9813887931 से संपर्क करके/उनसे जानकारी प्राप्त कर स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत कर लें और अग्रिम में लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर लें, जो ई–बोलीदान हेतु अनिवार्य है। कृपया ध्यान रखें कि संभावित बोलीदातागण केवल इन्हीं से ही ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता / बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे धरोहर राशि जमा (धराज) की राशि को 19.12.2022 को अथवा इससे पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत अथवा अनुसूचित बैंक पर आहरित एनईएफटी / आरटीजीएस / डीडी के माध्यम से "पूनावाल हाउसिंग फाइनेंस लि." के खाते. बैंक-आईसीआई बैंक लि., खाता सं. 000651000460 तथा आईएफएससी कोड- आईसीआईसी000006. 20. आर.एन. मखर्जी मार्ग, कोलकाता-700001 में जमा करें और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें तथा प्रयोक्ता आईडी व पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर उनके पंजीकरण के उपरांत

इच्छुक क्रेता / बोलीदाता से अपेक्षा है कि वे निम्नलिखित प्रलेखों की प्रतियों को अपलोड करें, स्वप्रमाणित वास्तविक प्रतियों को पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लि. के प्राधिकृत अधिकारी श्री सुधांशु शर्मा, पताः तृतीय तल, भूखंड सं. ३, सेक्टर—३, कौशांबी, एक्सिस बैंक के समीप, गाजियाबाद—201010, मोबाइल नं: 9953904004, ई—मेल आईडी : sudanshu.sharrma@poonawallahousing.com को ई—मेल एवं प्रेषित करें। स्थान : दिल्ली पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com

दिनांक : 16.11.2022

स्वयं/अपने आप को संतुष्ट कर लें।

(पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात)

Date: 14th November, 2022

PHOENIX